

अन्तर्जनपदीय शातिर लुटेरों के गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस मुठभेड़ में 05 शातिर लुटेरे गिरफ्तार, कब्जे से लूट के 05 अदद तमंचा 315 बोर, 05 अदद जिंदा व 05 खोखा कारतूस 315 बोर, एक अदद लूट की चेन, एक जोड़ी टाप, एक जोड़ी बाली, एक जोड़ी झुमकी, एक मंगलसूत्र (पीली धातु) व एक पायल (सफेद धातु), लूट के 04 मोबाइलफोन, लूट की 02 मोटरसाईकिल (सूपर स्प्लेंडर) एवं मोबाईल व वाहन के कागजात बरामद-

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री सुशील घुले के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, एसओजी/स्वाट/थाना रानीपुर/सरायलखंसी पुलिस टीम को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब जरिये मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक 03.07.2021 को थाना रानीपुर क्षेत्रान्तगत मिर्जापुर तिराहे के पास इटौरा की तरफ से आ रही दो मोटरसाईकिल पर सवार व्यक्तियों को टार्च की रोशनी में रोकने का इशारा किया गया तो पुलिस पार्टी पर फायर करते हुये पीछे मुड़कर भागने की कोशिश किये, इस दौरान मौजूद पुलिस बल द्वारा तत्परता दिखाते हुये 5 शातिर लुटेरों के कब्जे तथा उनकी निशानदेही पर 05 अदद तमंचा 315 बोर, 05 अदद जिंदा व 05 खोखा कारतूस 315 बोर, एक अदद लूट की चेन, एक जोड़ी टाप, एक जोड़ी बाली, एक जोड़ी झुमकी, एक मंगलसूत्र (पीली धातु) व एक पायल (सफेद धातु), लूट के 04 मोबाइलफोन, लूट की 02 मोटरसाईकिल (सूपर स्प्लेंडर) एवं मोबाईल व वाहन के कागजात बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

कड़ाई से पूछताछ के दौरान उक्त अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि-

दिनांक 26.06.21 को रानीपुर क्षेत्रान्तगत ब्राह्मणपुर पोखरा के पास सड़क पर मोटरसाईकिल सवार दंपति को ओवरटेक करके उसकी मोटरसाईकिल रोककर तमंचा दिखाकर महिला के गले की चेन, दोनों कान की बाली व टप्स लूट लिये गये।

दिनांक 29.06.21 को थाना रानीपुर क्षेत्रान्तगत शादीपुर के सामने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर एक दंपति से तमंचा छिखाकर महिला के कान की झुमकी तथा तीन मोबाइल व 07 हजार रुपये लूटकर भाग गये थे।

थाना सरायलखंसी क्षेत्रान्तगत बहुआगोदाम से एक मोबाईल व 280 रुपये लूटकर भाग गये थे।

दिनांक 29.06.21 को विष्णुपुरा के पास सिक्स लेन पर मोटरसाईकिल खड़ी कर पेषाब कर रहे व्यक्ति की मोटरसाईकिल की डिग्गी से लाकेट, मोबाईल व पैसा चोरी किये थे।

थाना कासिमाबाद क्षेत्र से एक मोटरसाईकिल सूपर स्प्लेंडर चुराये थे।

जनपद गाजीपुर थाना भुडकुड़ा क्षेत्र से एक मोटरसाईकिल सूपर स्प्लेंडर चुराये थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. पंकज कुमार पुत्र स्व0 ओमप्रकाश निवासी लहरापुर थाना मरदह जनपद गाजीपुर।
2. राकेश कुमार पुत्र सोफीराम निवासी दुर्जनपुर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़।
3. लालू कुमार पुत्र श्री राम निवासी दुर्जनपुर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़।
4. राणा यादव पुत्र स्व0 कुलदीप निवासी जियापुर थाना तरवां जनपद आजमगढ़।
5. साहुल कुमार पुत्र स्व0 राजकुमार निवासी दुर्जनपुर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़।

बरामदगी-

1. 05 अदद तमंचा 315 बोर।
2. 05 अदद जिंदा व 05 खोखा कारतूस 315 बोर।
3. एक अदद लूट की चेन, एक जोड़ी टाप, एक जोड़ी बाली, एक जोड़ी झुमकी, एक मंगलसूत्र (पीली धातु) व एक पायल (सफेद धातु)।
4. लूट के 04 मोबाइलफोन।
5. लूट की 02 मोटरसाईकिल (सूपर स्प्लेंडर)।
6. मोबाईल व वाहन के कागजात।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम-

निरीक्षक राजेश प्रसाद यादव प्रभारी स्वाट टीम मय हमराहियान।

उ0नि0 अमित मिश्रा प्रभारी एसओजी टीम मय हमराहियान।

आरक्षी विवेक सिंह, संजय सिंह, वृजेष मौर्या व शशी प्रकाश त्रिपाठी सर्विलांस सेल मऊ।

निरीक्षक राम सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना सरायलखंसी।
निरीक्षक अखिलेश कुमार प्रभारी निरीक्षक थाना रानीपुर मय हमराहियान।

अवैध तमंचा व कारतूस तथा बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल के साथ दो शातिर अभियुक्त गिरफ्तार-
आज दिनांक 03.07.2021 को चौकी प्रभारी रतनपुरा थाना हलधरपुर उपनिरीक्षक गंगा सागर मिश्र मय हमराहीगण कांस्टेबल जगदीश सोनकर कांस्टेबल अनिल कुमार कांस्टेबल सुयश चौधरी के द्वारा मेउडी चट्टी के पास से लूट के इरादे से जा रहे दो बदमाश अभय यादव उर्फ गोलू पुत्र अमरनाथ यादवए विशाल कुमार सूर्यवंशी पुत्र अमरनाथ राम निवासीगण पहसा थाना हलधरपुर जनपद मऊ को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त अभय यादव उर्फ गोलू के पास से एक अदद 315 बोर कट्टा व एक अदद 315 बोर कारतूस जिंदाए अभियुक्त विशाल कुमार सूर्यवंशी के पास से एक अदद कट्टा 303 बोर एक अदद जिंदा कारतूस 303 बोर तथा एक मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्लस बिना नंबर की बरामद हुई मोटरसाइकिल को एम बी एक्ट की धारा 207 के अंतर्गत सीज किया गया तथा अभियुक्तगणो के विरुद्ध क्रमशः मुकदमा अपराध संख्या 212/21 धारा 3/25 आयुद्य अधिनियम व मुकदमा संख्या 213/21 धारा 3/7/25 आयुद्य अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अभय यादव उर्फ गोलू पुत्र अमरनाथ यादवए
2. विशाल कुमार सूर्यवंशी पुत्र अमरनाथ राम निवासीगण पहसा थाना हलधरपुर जनपद मऊ।

बरामदगी-

1. एक अवैध तमंचा व कारतूस 315 बोर।
2. एक अवैध तमंचा व कारतूस 303 बोर।
3. एक मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्लस बिना नंबर प्लेट।

03 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

आज दिनांक 03.07.2021 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना मधुवन पुलिस द्वारा दुबारी बाजार से मु0अ0सं0 304/21 धारा 323/504/354 भादवि0 में वांछित अभियुक्त मूकेश यादव पुत्र लोकनाथ निवासी तिघरा थाना मधुवनए भरथिया के पास से मु0अ0सं0 348/21 धारा 354/506 भादवि0 में वांछित अभियुक्त प्रदुमन उर्फ गोलू राजभर पुत्र रामअवध निवासी भरथिया थाना मधुवनए थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा डुमराव मोड के पास से मु0अ0सं0 267/21 धारा 323/504/506/354/452/376 भादवि0 व 5झ/6 पोक्सों एक्ट में वांछित अभियुक्त अरविंद कुमार पुत्र चन्द्रा राम निवासी बैरिया डुमराव थाना सरायलखंसी जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।